

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 मई 2010—ज्येष्ठ 3, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2010

क्र. एफ. 4-2005-दो-सी-1.—प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1-2005-सी-1, दिनांक 29 अगस्त 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, महानिरीक्षक (कानून, व्यवस्था एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2010

क्र. एफ. 4-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

Bhopal, the 24th May 2010

No. F. 4-1-2005-II-C-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (No. 29 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F. 4-1-2005-C-I, dated 29th August 2007, the State Government hereby designates Inspector General (Law, Order and Security), Police Head Quarters, Bhopal, Madhya Pradesh to be the Controlling Authority for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRAHAS DUBE, Secy.

585

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010